

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]
No. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2007/फाल्गुन 10, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2007/PHALGUNA 10, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

सं. 15/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. सा.का.नि. 114(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(1)	(2)	(3)
"2	यदि खुदरा विक्रय कीमत खुदरा पैक पर मुद्रित है और,—	
	(i) टैरिफ मद 2106 90 20 के अंतर्गत आने वाले माल	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 56%
	(ii) शीर्ष 2403 के अंतर्गत आने वाले माल	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 50%"

[फा. सं. 334/1/2007-टी.आर.यू.]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 114(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2007

No. 15/2007-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the

following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 114(E) dated the 1st March, 2006, namely :—

In the said notification, in the Table, for S. No. 2 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"2.	If retail sale price is printed on the retail pack and,—	
	(i) goods fall under tariff item 2106 90 20	56% of the printed retail sale price
	(ii) goods fall under heading 2403	50% of the printed retail sale price"

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 114(E), dated the 1st March, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

सं. 35/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 168(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन						
(1)	(2)	(3)						
1.	69/2004 सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 [सा.का.नि. 411(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>51.</td><td>टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।</td></tr><tr><td>52.</td><td>टैरिफ मद 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।</td></tr></table>	(1)	(2)	51.	टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।	52.	टैरिफ मद 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
(1)	(2)							
51.	टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।							
52.	टैरिफ मद 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।							
2.	14/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 [सा.का.नि. 86(अ), तारीख 1 मार्च, 2006]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तंभ (4) में, अक्षर और चिह्न "12.5%" जहाँ भी इनका प्रयोग हुआ है के स्थान पर अंक और चिह्न "10%" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।						
3.	48/2006-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 2006 [सा.का.नि. 315(अ), तारीख 26 मई, 2006]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तंभ (4) में, अंक और चिह्न "12.5%" जहाँ भी इनका प्रयोग हुआ है के स्थान पर अंक और चिह्न "10%" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।						

[फा. सं. 334/1/2007-टी.आर.यू.]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण :— 1. मूल अधिसूचना सं. 69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004, सा.का.नि. 411(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 1 मार्च 18/2007-सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 2007 सा.का.नि. 106(अ) तारीख 22 फरवरी, 2007 द्वारा किया गया था।

2. मूल अधिसूचना सं. 14/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 138/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006, सा.का.नि. 799(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया था।
3. मूल अधिसूचना सं. 48/2006-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 2006, सा.का.नि. 315(अ), तारीख 26 मई, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2007

No. 35/2007-Customs

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with Section 91 and Section 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table namely :—

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendments						
(1)	(2)	(3)						
1.	69/2004-Customs, dated the 9th July, 2004 [G.S.R. 411(E), dated the 9th July 2004]	In the said notification, in the Table, after S. No. 50 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted namely :— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“51.</td><td>All goods falling under tariff items 8802 20 00, 8802 30 00 and 8802 40 00.</td></tr><tr><td>52.</td><td>All goods falling under tariff items 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00.”</td></tr></table>	(1)	(2)	“51.	All goods falling under tariff items 8802 20 00, 8802 30 00 and 8802 40 00.	52.	All goods falling under tariff items 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00.”
(1)	(2)							
“51.	All goods falling under tariff items 8802 20 00, 8802 30 00 and 8802 40 00.							
52.	All goods falling under tariff items 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00.”							
2.	14/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 [G.S.R. 86(E), dated the 1st March, 2006]	In the said notification, in the Table, in column (4), for the figures and symbol “12.5%” wherever they occur, the figures and symbol “10%” shall be substituted.						
3.	48/2006-Customs, dated the 26th May, 2006 [G.S.R. 315(E), dated the 26th May, 2006]	In the said notification, in the Table, in column (4), for the figures and symbol “12.5%” wherever they occur, the figures and symbol “10%” shall be substituted.						

[F.No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

- Note :—** 1. The principal notification No. 69/2004-Customs, dated the 9th July, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 411(E), dated the 9th July, 2004 and was last amended *vide* notification No. 18/2007-Customs, dated the 22nd February, 2007, and published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 106(E), dated the 22nd February, 2007;
2. The principal notification No. 14/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended *vide* notification No. 138/2006-Customs, dated the 30th December, 2006, and published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 799(E), dated the 30th December, 2006;
3. The principal notification No. 48/2006-Customs, dated the 26th May, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 315(E), dated the 26th May, 2006.